




अवैध असलहा दिखाकर रौब गाठने वाला गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव व क्षेत्राधिकारी महोदय सफीपुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा अवैध असलहा दिखाकर रौब गाठने वाले अभियुक्त को एक अदद अवैध देशी बन्दूक 12 बोर मय दो अदद जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 30.08.2021 को प्रभारी निरीक्षक फतेहपुर चौरासी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक शातिर अपराधी रामप्रकाश उर्फ प्रकाश जो थाना स्थानीय का हिस्ट्रीशीटर है, अपने गाँव में अवैध देशी 12 बोर बन्दूक के साथ कल से घूम घूम कर ग्रामीणों को धमका रहा है। जिसका विडियो भी वायरल हुआ है। वायरल विडियो को देखा गया जिसमें यह व्यक्ति हाथ में बन्दूक लिये ग्रामीणों को धमका रहा है। इस सूचना पर क्षेत्र में मामूर उ0नि0 सीताराम मिश्रा मय हमराही फोर्स के साथ गाँव धन्नापुरवा मजरा कटरी गदनपुर आहार में व्यक्ति के घर पर दबिश देकर अभियुक्त रामप्रकाश उर्फ प्रकाश उर्फ प्रताप पुत्र टीकाराम उर्फ टीकई निवासी ग्राम धन्नापुरवा मजरा कटरी गदनपुर आहार थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव को मय एक अदद अवैध देशी बन्दूक 12 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। असलहा बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 322/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर विधि अनुसार जेल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अभियुक्त एक शातिर अपराधी है तथा थाना स्थानीय का मजारिया हिस्ट्रीशीटर है जिसके पूर्व में व्यापक अपराधिक इतिहास है।



नाम पता अभियुक्त-

रामप्रकाश उर्फ प्रकाश उर्फ प्रताप पुत्र टीकाराम उर्फ टीकई निवासी ग्राम धन्नापुरवा मजरा कटरी गदनपुर
आहार थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव उम्र करीब 44 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

एक अदद देशी बन्दूक 12 बोर मय दो अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 141/03 धारा 384/504 भादवि थाना फतेहपुर 84 ,उन्नाव
2. मु0अ0स0 147/03 धारा 384/504 भादवि थाना फतेहपुर 84 ,उन्नाव
3. मु0अ0स0 148/03 धारा 399/402/307 भादवि थाना फतेहपुर 84 ,
4. मु0अ0स0 151/03 धारा 3/25आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर 84 ,उन्नाव
5. मु0अ0स0 241/03 धारा 110 सीआरपीसी थाना फतेहपुर 84 ,उन्नाव
6. मु0अ0स0 280/03 धारा ३/४ यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना फतेहपुर 84 ,उन्नाव
7. मु0अ0स0 54/05 धारा 307 भादवि थाना फतेहपुर 84 ,उन्नाव
8. मु0अ0स0 55/05 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर 84 ,उन्नाव
9. मु0अ0स0 198/05 धारा 3/25आर्म्स एक्ट थाना फतेहपुर 84 ,उन्नाव
10. मु0अ0स0 199/05धारा 3/10 यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना फतेहपुर 84 ,उन्नाव
11. मु0अ0स0 771/07 धारा 110 सीआरपीसी थाना फतेहपुर 84 ,उन्नाव
12. मु0अ0सं0 322/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना फतेहपुर 84 ,उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद अख्तर थाना फतेहपुर चौरासी
2. उ0नि0 सीताराम मिश्रा
3. हे0का0 राकेश सिंह
4. का0 ओमनरायन
5. का0 रामचन्द्र चौहान
6. का0 रंजीत कुमार
7. का0 मनीष कुमार

